

DUROPACK LIMITED

(Mfrs. of Flexible Laminates Pouches & Holographic Products)
Admin. Office: B-4/160, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 (INDIA)
Tel.: 011-26181611, 41359339, e-mall: info@duropackindia.com
Website: www.duropackindia.com, CIN: L74899DL1986PLC025835

03rd September, 2024

BSE Limited, Phiroze Jeejeebhioy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Code: 526355

Sub: Newspaper Advertisement

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of newspaper advertisements published in "Financial Express (English Newspaper) & Jan Satta (Hindi Newspaper)" on 03rd September, 2024, in compliance with the relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs, from time to time, intimating inter-alia that 36th Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, 28th September, 2024 at 10:00 A.M through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM").

You are requested to take the above information on records.

Thanking you For Duro Pack Limited

ANJU Digitally signed by ANJU Date: 2024.09.03 15:36:31 +05'30'

Anju

(Company Secretary & Compliance officer)

Regd Office: 3/14A, Vijaynagar Double Storey, Delhi-110009 Contact No. 9311480885, Website: www.efficientindustrial.in Email Id: efficientindustrial@gmail.com **PUBLIC NOTICE**

FOR KIND ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF EFFICIENT INDUSTRIAL FINANCE LIMITED

Pursuant to Ministry of Corporate Affairs' latest circular No.09/2023 dated 25.09.2023 read with 10/2022 dated 28.12.2022 read with SEBI's latest circular No SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October 2023, company was exempted from dispatching physical copies of Notices and Annual Report to shareholders and was also allowed conducting Annual General Meeting (AGM) through electronic mode till 30th September 2024. In view of the above, Efficient Industrial Finance Limited (the company) intends to convene its 40th Annual General Meeting on, Monday, 30th September 2024 at 01:00 P.M., through Audio visual means in compliance with the provisions of Companies Act and Rules and circulars issued there under and regulations and circulars issued by the SEBI under the SEBI (Listing obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015.

The Notice of the AGM will be posted on the website of the Company () and also will be available at the website of Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in).

We hereby request all our shareholders to update their Email IDs for receiving Annual Reports, Notice of AGM and other communications from the Company. Further, up-date their Bank details so as to enable electronic credit of dividends if declared by the Company from time to time without any delay and banking hassles. Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for

procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice: In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN

card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16

digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar

Card) to efficient industrial@gmail.com Shareholders holding shares in physical form are requested to convert their holdings in demat form as transfer of shares in physical form has been prohibited by the SEBI

Swati Tomai

For Efficient Industrial Finance Limited

Compliance Officer cum Company Secretary

Place: New Delhi

Date: 3RD September, 2024

DUROPACK LIMITED CIN: L74899DL1986PLC025835

The 36th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through video

Regd. Office: 3123, Sector-D, Pkt -III, Vasant Kunj, New Delhi -110070 Tel: 01126191861 Email: info@duropackindia.com Website: www.duropackindia.com Information regarding 36th Annual General Meeting and Record Date

Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, September 28. 2024 at 10:00 a.m., in compliance with all the applicable provisions of the Companie Act. 2013 and the Rules made thereunder ("Act") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosures Requirements Regulations, 2015 ("listing regulations"), read with latest General Circular No. 09/2023 dated September, 25, 2023 read with Circular No. 14 dated April 8, 2020 and Circular No. 17 dated April 13, 2020, respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") has permitted the holding of Annual General Meeting through Video Conferencing("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of Members at a common venue. The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its latest circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167dated October 07, 2023 read with circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 read with Circular dated May 13, 2022, January 15, 2021 and May 12, 2020 ("SEBI Circulars") and other applicable circulars (Collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM. Members participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the financial statements for the financial year 2023-24, along with Board's report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at https://duropackindia.com/annual-report and on the website of the Stock Exchange, i.e., BSE Limited at https://www.bseindia.com.

Manner of registering/updating email addresses:

(a)Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to register/ update the same by writing to the Company at cs@duropackindia.com and info@duropackindia.com or to M/s Abhipra Capital Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company at rta@abhipra.com with details of folio number, Name of shareholder. scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card). (b)In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID

CLID or 16 digit beneficiary ID), Name of Shareholder, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card). AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to cs@duropackindia.com and info@duropackindia.com or to M/s Abhipra Capital Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company at rta@abhipra.com

Manner of casting vote(s) through e-voting:

(a)Member will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting").

(b) The facility for voting through electronic voting system will also be made available a the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through electronic voting system The manner for attending AGM through VC/ OVAM and voting through e- voting system during the AGM, by the members holding shares in physical mode and by the members who have not registered their email addresses, will be provided in the Notice of the AGM.

(c)The manner of voting remotely ('remote e-voting') by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM.

Book Closure/Record Date for AGM thereof:

Notice is also given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of listing regulations, the register of members and share transfe books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2024 to Saturday, September 28, 2024 (Both days inclusive) for the purpose of AGM.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or during the AGM.

For and on behalf of Board of Directors of **Duro Pack Limited**

Place: New Delhi Date: 02" September, 2024

them, to redeem the secured asset.

Name of the Branch/

Borrower/Guarantor

SHARIKA ENTERPRISES LIMITED CIN: L51311UP1998PLC206404

Regd. Off: C-504, Fifth Floor, ATS Bouquet, Sector-132, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201305 E-mail: info@sharikaindia.com, Website; www.sharikaindia.com

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, September 26, 2024 at 3:00 P.M. through Video Conference ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with General Circular No. 09/ 2023, 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA). Government of India and Securities and

Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set forth in the Notice of the In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2023-24 have been sent to all the shareholders

whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The Company has provided electronic voting facility for transacting all the business(es) items as mentioned in Notice of 26th Annual General Meeting through e-voting facility on the platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The remote e-voting facility shall commence on Monday, September 23, 2024 at 09:00 A.M. and will end on Wednesday, September 25, 2024 at 5:00 P.M. No e-voting shall be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cutoff date i.e., September 20, 2024 only, shall be entitled to avail the facility of remote evoting/e-voting at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting. 1. Any person who has acquired shares and become members of the Company after

dispatch of notice may obtain the user id and password for remote e-voting from the Company's Registrar & Transfer agents, M/s Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website www.sharikindla.com and CDSL's website www.cdslindia.com The result of e-voting shall be announced on or after the Annual General Meeting of the

Company. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of CDSL for information of the members, besides being communicated to the Stock Exchange(s). The Notice and Annual Report of the Company is posted on the website of the Company

i.e. www.sharikaindia.com. In case you have queries or issues regarding attending AGM and e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helodesk.evoting@cdslindia.com or contact (022-23058738 / 022-23058542/ 43). I case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex; Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013

Further Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015; the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 20, 2024 to Thursday, September 26, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

> Saumya Jaiswal Company Secretary & Compliance Officer

Regd. Office: G-25, GROUND FLOOR, RASVILAS SALCON D-1, SAKET DISTRICT CENTRE, SAKET, NEW DELHI, SOUTH DELHI -110017 (CIN: L74110DL1995PLC069787), E mail: cs@saicapital.co.in, Ph.: 011-40234681, Website: www.saicapital.co.in

NOTICE OF 29[™] ANNUAL GENERAL MEETING Dear Members

 Notice is hereby given that the Twenty Ninth Annual General Meeting ("29" AGM") of M/s. Sai Capital Limited ("the Company") will be held on Monday, 30th September, 2024 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility as per the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and the Rules framed thereunder, read with General Circular Nos. 20/2020, 10/2022 and 09/2023 dated 5" May, 2020, 28" December, 2022, 25" September, 2023, respectively and other Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The deemed venue for the 29th AGM shall be the Registered Office of the Company.

Electronic copy of the Notice of 29" AGM and the Annual Report for the financial year ended 31" March, 2024 will be sent only by email to all those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) ("Depository"). The Notice of the 29" AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website (www.saicapital.co.in); BSE Limited (www.bseindia.com); and National Securities Depository Limited ("NSDL" (www.evoting@nsdl.co.in). Members can join and participate in the 29" AGM through VC/OAVM facility only. Detailed instructions for joining the 29" AGM and manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 29" AGM are provided in the Notice of 29th AGM. Members participating in the 29th AGM through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Members holding Shares in physical form who have not registered/ cs@saicapital.co.in.

a) Duly filled and signed request letter in Form ISR-1, which is available

b) Self-attested scanned copy of the PAN Card linked with Aadhaar; and

c) Self-attested scanned copy of any document in support of the address (such as Aadhaar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) of the Member, or any such other document as prescribed in the Form ISR-1.

their email address/ Electronic Bank Mandate with the Depository.

all the Members of the Company and is in compliance with the Act, MCA Circulars and SEBI Circulars. By Order of the Board

Sai Capital Limited

Dr. Niraj Kumar Singh

Dated: 02.09.2024 Chairman & Managing Director DIN: 00233396 Place : New Delhi

Outstanding

Amount

Rs 20,20,021.00

UNIVERSAL CONVEYOR BELTINGS LIMITED CIN-U29299DL1973PLC006646

Registered Office: Office No 24, 2nd Floor, B 28, Maurya Complex, Laxmi Nagar, Delhi-110092

the business as set out in the Notice convening the said AGM,

NOTICE FOR 50" ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING

(A) Annual General Meeting: Notice is hereby given that the 50" Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company is scheduled to be held on Saturday, 28" September, 2024 at 12:30 P.M. to transact

The Company has on 2rd September, 2024 completed the dispatch of the Notice of the AGM whose names have appeared in the Register of Members for those holding in physical mode/Demat mode as on 23" August, 2024 either by email to the email ids available with the Company/Registrar & Share Transfer Agents (RTA/Depository Participant(s), as the case may be or by post at the address registered with the Company/RTA. The Annual Report and other communications sent physically as well as electronically to the members whose Email ID available with RTA and shall also be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays, Sundays and public holidays, between 11:00 a.m. and 5:00 p.m. up to the date of the AGM. (B) E-voting:

the Companies (Management and Administration) Rules. 2014, as amended, and Secretarial Standards on General Meetings, the Company is providing remote e-voting facility for its shareholders to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM for all the resolutions set forth in the Notice, for which the Company has engaged the services of CDSL as e-voting agency. All the members are informed that:

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of

Place : New Delhi

Date: 02-09-2024

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is Friday, 20" September, 2024. Date of completion of sending Notice of AGM: 2" September, 2024.

Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date, i.e. 20" September, 2024 may obtain the login-id and password by sending an e-mail to briteindia@hotmail.com and evoting@cdsl.co.in_by-mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID No. However, if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user-id and

Date & time of commencement of	Wednesday, 25 th September, 2024, 9:00
remote e-voting	A.M. (IST)
Date & time of end of remote e-voting	Friday, 27th September, 2024, 5:00 P.M. (IST)

The remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) on Friday, 27" September, 2024, 5:00 P.M. (IST).

The Notice of the Annual General Meeting is available on CDSL's website viz. https://www.cdslindia.com/, However, as per Rule 18(3) (ix) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 publication of notice of AGM on company's website is not applicable as the company does not maintain a website.

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM; however those Members shall not be entitled to cast their vote through e-voting again during the

n case of any grievance in respect of e-voting, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual <u>www.evotingindia.com</u> under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Helpdesk: 1800 21 09911 or email to The result of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company. The results

declared along with the Scrutinizer's Report shall be published on the website of CDSL for The detailed instructions regarding the above will be provided in the Notice of the AGM and

Shareholders are requested to take note of the same. For and on behalf of the Board

Universal Conveyor Beltings Limited Arun Kumar Mohata Managing Director DIN: 01038464



ITCONS E-SOLUTIONS LIMITED (Formerly Known as ITCONS E-Solutions Private Limited)

CIN: L72900DL2007PLC163427 Registered Office: Regus Elegance 2F, Elegance Jasola District Centre: Old Mathura Road,

South Delhi, New Delhi-110025 IN Corporate Office: 3rd Floor, B-10, Bajaj Bhawan, Sector-3, JamnaLal Bajaj Marg, Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201301 IN Tel.: +91-120-4149563 | Email: cs.pooja@ltconsinc.com | Website: www.itconsinc.com

NOTICE OF 17TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 17th Annual General Meeting (AGM) of the Members of

ITCONS E-Solutions Limited ("the Company") will be held on Friday, 27th September, 2024 at 03:00 p.m. (IST) through Video Conferencing or Other Audio Visual Means (VC/OAVM') to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, in Compliance with General Circular No 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 9/2023 by Ministry of Corporate affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P 2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15 2021. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/ PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 In compliance to the above circulars, the Notice of the AGM along with Annual Report for

financial year 2023-24 has been sent on Monday, 02nd September, 2024 through electronic mode to all shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) and the same is also available on the Company's website at www.itconsinc.com and on the website of the stock Exchange viz. BSE Limited at www.bseindia.com and on NSDL website at www. evoting.nsdl.com.

The Company is providing facility to the Members for exercising their right to vote on the items of business set out in the Notice of AGM by remote e-voting as well as e-voting during the AGM system through platform provided by National Securities Depository Limited ('NSDL'). The details pursuant to the Rules are given here under:

a) Date and time of commencement of remote e-voting: 24.09.2024 (9.00 a.m. IST). Date and time of end of remote e-voting: 26.09.2024 (5.00 p.m. IST).

The Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut- off date i.e. 21.09.2024, may cast their vote electronically.

d) The remote e-Voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST on

The Members would be able to cast their votes at the meeting through e-voting facility during AGM if they have not availed the remote e-voting facility. To cast e-vote during the AGM please refer the instruction mentioned in the AGM Notice. If the vote is cast through remote e-Voting facility then the members would not be permitted to exercise their voting

The Members may participate in the general meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting in the general meeting.

Any person who have acquired shares and become member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. 21st September, 2024 may obtain the login ID and password by following the steps as mentioned in the AGM Notice. Members attending the AGM through Video Conferencing /Other Audio-Visual Means shall be

counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Board of Directors have appointed Mrs. Snehal Kashyap, Practicing Company Secretary as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner.

The result of remote e-voting and e-voting at the AGM shall be announced within 2 working days of the AGM of the Company. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of NSDL for information of the members, besides being communicated to the Stock Exchange

pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, September 22, 2024 to Friday, September 27, 2024 (both days nclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

All queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com, under help section or contact to Ms. Pallavi Mhatre, Manager NSDL at 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or write an email to evoting@nsdl.co.in. For ITCONS E-Solutions Limited

Place: New Delhi

Date: 02nd September, 2024

Managing Director

Gauray Mittal



Sapne Aapke, Bharosa Apno Ka INTEC CAPITAL LIMITED CIN: L74899DL1994PLC057410

Regd. Off.: 708, Manjusha Building, 57 Nehru Place, New Delhi - 110 019 T.: +91-11-4652200/300: F.: +91-1146522333

Website: www.inteccapital.com, Email ID: complianceofficer@inteccapital.com NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

n compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules

made thereunder, Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Pursuant to General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with MCA General Circular Nos. 14 & 17/2020 dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 respectively and MCA General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 ("MCA Circulars"), NOTICE is hereby given that the Thirtieth (30th) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Intec Capital Limited ('Company') will be held on Thursday, September 26, 2024 at 12:00 p.m. (IST) through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'), without the physical presence of the Members at the AGM, to transact the businesses as set out in the Notice convening the 30th AGM ('AGM Notice'). Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

those Members whose email IDs are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ('RTA')/Depository Participant ('DP'). The emailing of AGM Notice to all members has been completed on September 02, 2024. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.inteccapital.com websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at https://www.evotingindia.com/. Members whose email IDs are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Notice. Members, who have not registered their email IDs, are requested to register the same for

In compliance with the Circulars, AGM Notice along with the Integrated Annual Report for

FY 2023-24 ('Integrated Annual Report') has been sent only through electronic mode to

receiving all communications including Integrated Annual Report, Notices etc. from the Company electronically as per process mentioned below:

1) Members holding equity shares of the Company in demat form are requested. To

approach their respective DP and follow the process advised by DP. Members holding equity shares of the Company in physical form may register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant Forms with Company's RTA, Link

M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt Ltd., at beetalrta@gmail.com Members

may download the prescribed Forms from the Company's website at https://www.inteccapital.com/investors/investor-information/investo-rrequest-forms/. In compliance with provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), as amended, read with MCA Circulars, the Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-Voting facility (prior the AGM) and e-Voting facility (during the AGM), on all the resolutions set forth in AGM Notice, The facility of casting votes will be provided by CDSL. Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members who are present in the AGM through VC/OAVM

Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM. All the Members

facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-Voting. The

The business as set forth in the AGM Notice will be transacted through voting by electronic means in the form of e-Voting.

b) The voting rights of Member(s) shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Thursday, September 19, 2024. Any person who is a member of the Company as on cut-off date is eligible to cast vote electronically through remote e-Voting or e-Voting at the AGM on all the resolutions set forth in the AGM Notice.

Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the Company sends the AGM Notice and holding shares as on cut-off date i.e. Thursday, September 19, 2024, may obtain the User ID and password by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID for casting their vote. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-Voting then existing User ID and password can be used for casting the votes.

d) Remote e-Voting facility will be available during the following period:

Commencement of remote e-Voting | Monday, 23rd September 2024 (09:00 a.m. IST) End of remote e-Voting Wednesday, 25th September, 2024 (05:00 p.m. IST

During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form may cast their vote by remote e-Voting before the AGM.

The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the

vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change

The Members will be provided with the facility for e-Voting at the AGM and those Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting before the AGM, will be eligible to vote at the AGM.

g) The Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM. Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is provided in the AGM Notice and also available on the Company's website at www.inteccapital.com and on the

website of CDSLat www.evotingindia.com. Members may send a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com for procuring User id and password for e-Voting by providing documents as mentioned in the AGM

In case of any queries related to e-Voting, please refer the Frequently Asked Questions and e-Voting user manual for Members available at the download section of www.evotingindia.com or call on toll free no.: 1800 22 55 33 or send a request to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

The Board of Directors of the Company has appointed CS Priyank Kukreja, Practicing Company Secretary, as scrutinizer to scrutinize the process for remote e-Voting and e-Voting at the AGM in a fair and transparent manner. The Results shall be declared within two working days of the conclusion of the AGM

who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

and the same, along with the consolidated Scrutinizer's Report, shall be placed on the website of the Company (www.inteccapital.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.) and shall be communicated to BSE Limited.

By the order of the Board For Intec Capital Limited

Date: September 02, 2024 Place: New Delhi

Date of

(Sanjeev Goel) **Managing Director** DIN: 00028702

DEMAND Indian Overseas Bank 🚳 NOTICE

Regional Office: 595. Malik Chowk Indra Nagar, Dehradun, Uttarakhand-248001 Notice Under Section-13(2) of The Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Whereas at the request of you (below mentioned borrowers or/and guarantors) Branch Coming Under Indian Overseas Bank Regional office: Dehradun, had granted Loan Facility against scheduled property, creating security Interest in favour of the bank. The particulars of property mortgaged, by you by way deposit of title deeds creating security interest in favour of the bank are mentioned hereunder, As you have failed to discharge the debut due to the bank, the below mentioned loan account has been classified as Non- Performing Asset as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India. The said Notice dated 06.08.2024 has been sent to all the person referred below by speed Post which may/may not have been delivered to one or more person referred below, we are publishing the contents of said demand Notice as under for kind Information. Of persons Mentioned below and public at large. Through this publication we call upon the attention of Borrower & the serving legal heirs of deceased Guarantor & Mortgagor. whose names have been referred in publication and also who is not referred or know to the Bank, and informing them with the contents of the demand

notice dated. Whomsoever may, if they so desire, collect the copies of said demand notice from the undersigned on any working day

Description of Secured Assets

Guarantors with Address Demand Notice 1. Branch : Jwalapur Haridwar Rs. 7,34,532/ 06.08.2024 Particulars of securities Commercial Property located as on 31.07.2024 Borrower: 1. M/s Friends Traders Mohalla Lodha Mandi, Jwalapur Tehsil & District Haridwar Date of NPA with interest (Proprietor Mr. Kiran Prakash), Office admeasuring an area of 80 square feet, in name of Anita Address: New Ansari Market, Verma W/o Kiran Prakash Verma Boundaries as per & other charges 30.07.2024 Gurudwara Road, Jwalapur, Haridwar- deed: East- Lane, West- House of Seller, North- Shop of Kherunisha & South- Shop 249407, 2. Sh. Kiran Prakash Verma, of others.

Chaklan, New Dheerwali, Jwalapur, Haridwar-249407, Guarantor: 1. Late Mrs. Anita Verma (through It's Legal Heirs) Mr. Prince Verma (son Of Mrs. Anita Verma) Permanent Address: 534, Mohalla Chaklan New Dheerwali Jwalapur Haridwar-249407; Landmark Guhal Mandir, **2.** Late Mrs. Anita Verma (through It's Legal Heirs), Mrs. Pooja Verma (daughter Of Anita Verma), Permanent Address: 534, Mohalla Chaklan New Dheerwali Jwalapur Haridwar-249407; Landmark Guhal Mandir. If the aforementioned borrowers/guarantors/mortgagor or their legal heirs falls to repay the above mentioned amount due by you with

future interest and Incidental expenses, costs as stated above in terms of this notice under section 13(2) of SARFAESI Act, within 60 days from the date of publication of this notice, the bank will exercise all or any of the rights detalled under Sub-section (4) of sanction 13 of SARFAESI Act and other applicable provision of the said Act. This notice is without Prejudice of the Bank's right to Initiate such other actions or legal proceedings, as it deem necessary under any other provisions of law.The said Borrowers/ mortgagors/ guarantors Legal heirs are prohibited under the SARFAESI Act from transferring the secured assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of Indian Overseas Bank. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules shall be liable for imprisonment and/or fine as given under Section 29 of the Act.

Date - 02.09.2024

during normal office hours.

Name of the Borrowers/Mortgagors/

Place - Haridwar

Authorized Officer, Indian Overseas Bank

Total Dues

[Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the Company from one state to another Before the Central Government Northern Region

"FORM NO. INC-26"

itter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of Greenpay Network Private

Limited having its registered office at RZ 2671/ 28 4th Floor Tughlakabad Extension, New Delhi-Notice is hereby given to the general public that the Applicant Company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the situation clause

If of its memorandum of association in terms of

the special resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on August 20, 2024 to enable the Applicant Company for shifting its registered office from the "State of NCT of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh" Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Applicant Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post his/her/its objections supported by an affidavit stating the nature of his/her/its interest and grounds of opposition to the REGIONAL DIRECTOR NORTHERN REGION, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, B-2 WING, 2ND FLOOR PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI-110003, within 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice with copies to the Applicant Company at its current registered

Applicant company: Communication Address: GREENPAY NETWORK PRIVATE LIMITED CIN: U72900DL2020PTC364197 Regd. Office: RZ 2671/28 4th Floor ughlakabad Extension, New Delhi-110019

E-Mail: akaash.kumar@greenpaynetwork.co.in

Date: 03.09.2024

office address mentioned above and to the

below mentioned communication address of the

For and on behalf of the Applicant Company GREENPAY NETWORK PRIVATE LIMITED ANIL KUMAR Place: Delhi Managing Director

DIN: 09094193

financialexp.epapr.in New Delhi

For Sharika Enterprises Limited

Noida, Uttar Pradesh Date: September 3, 2024

updated their email addresses with the Company may obtain Notice of the 29" AGM, Annual Report and/or login details for joining the 29" AGM through VC/OAVM facility including e-voting, or receiving any future communication by sending following documents via email at

on the website of the Company;

Members holding shares in Dematerialized form are requested to update

The above information is being issued for the information and benefit of

Date of

Demand Notice

Vivek Jain **Managing Director** DIN: 01753065

Regional Office: 595, Malik Chowk, Indra

Indian Overseas Bank 🕉 Nagar, Dehradun, Uttarakhand-248001

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property Rules 8 (1))

Description of the

Immovable Property

Whereas, the undersigned being the authorised officer of the Indian Overseas Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on mentioned in the notice calling upon the Borrower/ Guarantor/ Mortgagor /Through Their Legal heirs to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of said notice. The Borrower's/Legal heirs and other having failed to repay the amount, the notice is hereby given to the borrower/Through Their Legal heirs and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on the date mentioned are below. The borrower's/Legal heirs in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIAN OVERSEAS BANK. The

borrower's/Legal Heirs attention is invited to provisions of Sub Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to

1	Branch: Shivalik Nagar, Haridwar (2901)	Equitable Mortgage By Deposit Of Title Deed Of Property Situated At House On Plot No 15	13.00.7074	Rs 20,20,021.00 as on 27.08.2024 together	
l	Borrower :- Mrs. Sandhya	Having Khasra No 316 Situated In Village Jamalpur Kalan Opposite Gayatri Mata Mandir	Date of Possession		
	Ms. Priya Mishra D/o Sh.	Nr Chhoti Neher Pargana Jwalapur Tehsil And District Haridwar Uttarakhand. Bounded And		and other charges etc from 30.08.2024	
	on Plot No. 15, Having Khasra No. 316, Situated in Village Jamalpur Kalan, Land Of Other Person. In The Name of Mrs. Sandhya And Ms.Priya Mishra				
l.	Opposite Gayatri Mata Mandir, Near Chhoti Neher, Pargana Jwalapur, Tehsil and District Haridwar, Uttarakhand.				
2	Branch: Sarai, Haridwar (3212)	House on Part of Plot No. 16, Khasra No. 242, Village Jamalpur Kalan, Pargana Jwalapur	10.00.202	Rs 10,64,279.80	

ar, Uttarakhand. Rs 10,64,279.80 as on 28.08.2024 together Haridwar, Uttarakhand-249404, Measuring Date of Possession Borrower/Mortgagors with further interest at Mr. Ahsan S/o Mr. Sattar, 69.33 Sq.Mt. Boundaries are as follow East: contractual rates, expenses R/o: Village and Post Office Drainage, West: Part of Plot No 16, North: and other charges etc 30.08.2024 Sarai, District Haridwar, Chak Road, South: Way 16 feet wide. In the Name Mr. Ahsan S/o Mr. Sattar. Uttarakhand-249404 Branch: Vikas Nagar, Residential property bearing Khatuni Khata Rs 20,90,850.00 21.05.2024 No.166, Khasra No.263 Ka Min, Area 231.60 Dehradun (2502) as on 29.08.2024 together Borrower/Mortgagors: Sq. Mtr. or 2492.00 Sq. Ft., Situated at Mauza Mohd. Naim Khan S/o Dharmawala, Pargana Pachwadoon, Tehsil Date of Possession with further interest at

contractual rates, expenses Shamshad Ali Khan, R/o-Vikas Nagar, District- Dehradun, Uttarakhand. and other charges etc Village Dharmawala, Post Boundaries as per sale deed/registry: 30.08.2024 Office Dharmawala, Vikas East-16 feet wide roadside (side measuring Nagar, Uttarakhand-248142 44feet), West- Land of Seller (side measuring 45feet), North- 12 feet wide passage (side (Hereinafter referred as measuring 56feet), South- Land of Seller side (measuring 56feet), Property in name of borrowers) All surviving Naim Khan & Shajiya Khan. legal heirs Late Mrs. Shajiya Khan W/o Mohd. Najm Khan.**R/o-** Village Dharmawala. Post Office Dharmawala. Vikas Nagar

Uttarakhand-248142 Date: 02.09.2024 **Authorized Officer, Indian Overseas Bank** D 🔵 🛑 🔴

Registered Office: 19-A Dhuleshwar Garden. Jaipur, Rajasthan, India, 302001. www.aubank.in

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on 09 Sep 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time) at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers; all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

NEW DELHI - MALVIYA NAGAR - 23660000627780 | NEW DELHI PITAMPURA - 23660000251156 | NEW DELHI - RAJOURI GARDEN 23660002091862 |

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

Manager

AU Small Finance Bank Limited

DCM LIMITED

पंजी. कार्यालयः यूनिट नं0. 2050 से 2062, दुसरा तल, प्लाजा—॥, सेंट्रल स्ववायर, 20, मनोहर लाल खुराना मार्ग, बारा हिंदू राव, दिल्ली-110006 CIN- L74899DL1889PLC000004 फोन: 011-41539170 ई-मेल आईडीः investors@dcm.in वेबसाइटः www.dcm.in

134वीं वार्षिक ज्ञाम बैठक (एजीएम) के सदस्यों को सूचना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 2/2022, 10/2022 और 09/2023 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 गई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसम्बर, 2021, 5 गई, 2022, 28 दिसम्बर, 2022 और 25 सितम्बर, 2023 ("एमसीए परिपन्न") और सेबी ने अपने परिपन्न दिनांक 12 गई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022, 5 जनवरी, 2023 और 7 अक्टूबर, 2023 (सामृहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्गित) के माध्यम से आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना एजीएम विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमाँ ("ऑएवीएम") के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों, सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं)। विनियम, 2015, यथा संशोधित ('सेबी सूचीयन विनियम') और एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में निदेशक मंडल ने आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना कंपनी की 134वीं एजीएम सोमवार, 30 सितम्बर, 2024 को दोपहर 12:30 बजे विकियो कॉन्फ्रेंसिंग "वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमाँ ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित करने का निर्णय

134वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.dcm.in), स्टॉक एक्सबेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) तथा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसबीएल'') की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 134वीं एजीएम में शामिल एवं भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम मध्यम से माग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की घारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के प्रयोजन हेतु की जाएगी। (134वीं एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश 134वीं एजीएम की सूचना में दिये गये हैं)।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को 134वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए रिमोट ई-बोटिंग (एजीएम से पूर्व) एवं ई-बोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा उपलब्ध करा रही है। (रिमोट ई-बोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-बोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश 134वीं एजीएम की सूचना में दिये गये हैं)।

एमसीए परिपत्रों और संबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में 134वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को ई-मेल हारा मेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी या उनके संबंधित ढिपॉजिटरी प्रतिभागी ("ढीपी") के पास पहले से ही पंजीकृत हैं।

डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार डिमेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिनका ई- मेल पता अपने ढीपी के पास पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे 134वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 134वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिए केवल अपने डीपी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं। पंजीकृत ई-मेल पते का उपयोग भविष्य में संचार भेजने के लिए भी किया जाएगा। इसके अलावा, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिनका ई-मेल पता कंपनी या आरटीए के पास पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे 134वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 134वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना नाम, फोलियों नम्बर, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन प्रति एवं पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति एवं आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी कंपनी को ई-मेल investors@dcm.in या आरटीए अर्थात एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेंड को admin@mcsregistrars.com पर अनुरोध भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं या

फोन नं. 011 41406149-52 पर सम्पर्क करें। कोई भी व्यक्ति जो शेयर अधिग्रहित करता है और 134वीं एजीएम की सूधना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 को शेयर धारण करता है, वह 134वीं एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार निर्देशों का पालन करके या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेजकर अपना लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण सुश्री पल्लवी महात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से 022-4886 7000 या 022-2499 7000 पर सम्पर्क कर सकते हैं या ई-मेल evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेज सकते हैं या कंपनी के अनुपालन अधिकारी को ई-मेल investors@dcm.in पर लिखा सकते हैं। उपरोक्त जानकारी कंपनी के सदस्यों की जानकारी एवं लाम के लिए जारी की जा रही है और यह एमसीए एवं अन्य लागू परिपन्नों के अनुपालन में है।

त्थानः विल्ली

दिनांकः 02 सिवम्बर, 2024

यादविंदर गोयल कंपनी सविव

कृते डीसीएम लिमिटेड

2 सितंबर 2024 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित 42वीं वार्षिक आम बैठक के बारे में जानकारी का शृद्धिपत्र।

स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड

CIN: U25208HR1983PLC015135 पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर ११८, सेक्टर ६८, आईएमटी, फरीदाबाद-१२/१००४ वेबसाइटः www.studds.com, इं-मेलः secretarial@studds.com

फोन नंबर: 0129-4296500 42वीं वार्षिक आम बैठक के बारे में जानकारी

कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय ('एमसीए परिपन्न') द्वारा जारी परिपन्नों के साथ पठित कंपनी अधिनियम. 2013 ('अधिनियम') के लागु प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में, स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड के सदस्यों की 42वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 2:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमीं ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम की सुचना में निर्धारित किए गए व्यवसायों का संचालन करने के लिए आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को

अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सुचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज (सामहिक रूप से 'वार्षिक रिपोर्ट' के रूप में संदर्भित) केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजे जाएंगे जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आस्टीए) या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.studds.com और कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने और

वार्षिक रिपोर्ट/एजीएम नोटिस और लाभांश इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए ई-मेल पते और बैंक खाता विवरण ('केवाईसी') पंजीकृत/अद्यतन करने

भागादारा के तराक के निर्देश एजाएम का सृचना में दिए गए हैं।

- (क) यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), केवाईसी विवरण: पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित रकैन की गई प्रति), बैंक विवरण (यदि अपडेट नहीं है) आरटीए को delhi@linkintime.co.in पर या कंपनी को secretarial@studds.com पर इंमेल द्वारा प्रदान करें।
- (ख) यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने डीपी हारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपने केवाईसी विवरण को पंजीकृत/अपडेट करें।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-बोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-बोटिंग/ई-बोटिंग तथा सदस्यों द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी (जिनमें वे सदस्य भी शामिल हैं, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, जिसमें युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शामिल है) की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है, जो आपको शीघ्र ही भेज दी जाएगी। कंपनी के निदेशक मंडल ने 22 जुन, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 4 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है, जो एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो लाभांश का भुगतान कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों को रिकॉर्ड तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 को किया जाएगा, ताकि लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित की जा सके।

कृपया किसी भी सहायता के लिए कंपनी के सचिवालय कार्यालय में लिखें।

स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड के लिए दिनांक: 31 अगस्त, 2024 आशा मित्तल स्थानः फरीदाबाद (कंपनी सचिव)

शारिका एंटरप्राइजेज लिमिटेड CIN: L51311UP1998PLC206404 पंजीकृत कार्यालयः उ-504, पांचवीं मंजिल, एटीएस बुके, सेक्टर-132, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत, 201305 ई-मेलः info@sharikaindia.com, वेबसाइटः www.sharikaindia.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023, 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सभी अन्य लागू कानुनों और परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी की 26वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को अपराह्न 3:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से, 28 अगस्त, 2024 की बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन करने के लिए आयोजित की जाएगी। उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेज दी गई हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास

कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के प्लेटफॉर्म पर ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से 26वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित सभी व्यवसायिक मदों के लेन-देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान की है। सदस्य बैठक स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई-वोटिंग') का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद कोई ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी।

वह व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी 20 सितंबर, 2024 को सदस्यों/लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, बैठक में रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन बैठक में दोबारा वोट डालने के

कोई भी व्यक्ति जिसने नोटिस भेजने के बाद शेयर खरीदे हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है, वह कंपनी के रजिस्टार और टांसफर एजेंट, मेसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153ए, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 से रिमोट ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक के नोटिस में भी दी गई है जो कंपनी की वेबसाइट www.sharikindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है। ई-वोटिंग का परिणाम कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद घोषित किया जाएगा। घोषित परिणाम को जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट और सीडीएसएल की वेबसाइट पर सदस्यों की जानकारी के लिए रखा जाएगा. साथ ही स्टॉक एक्सचेंज को भी सुचित किया जाएगा।

कंपनी की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.sharikaindia.com पर पोस्ट की जाएगी। यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के बारे में प्रश्न या समस्याएं हैं, तो आप www.evotingindia.com के सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAOs') तथा e-voting manual देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या (022-23058738 / 022-23058542/43) पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में, कृपया श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 से संपर्क करें।

इसके अलावा यह भी सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार; वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रिजस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 से गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सिम्मिलित) बंद रहेंगी।

शारिका एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए सौम्या जायसवाल

दिनांक: 3 सितंबर, 2024

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

AUTO PINS (INDIA) LIMITED

Registered Office: Premise No. 40, 1st Floor, India Mall, New Friends colony, Delhi-110025 CIN: L34300DL1975PLC007994; Mob: (91)-7827937904 Website: http://www.autopinsindia.com E-Mail: autopinsdelhi@gmail.com

Notice is hereby given that the 49th (Forty Ninth) Annual General Meeting of members of Auto Pins (India) Limited will be held on Wednesday, the 25th day of September, 2024 at 12:30 P.M at its Registered Office at Premise No. 40, 1st Floor, India Mall, New Friends Colony, New Delhi 110025 to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated 30th August 2024 in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013.

The notice alongwith annual report has been sent to those members whose email IDs are registered with the RTA/ Company/Depositories and the same is also available on the website of

the Company at www.autopinsindia.com and BSE. Pursuant to Section 91 of the Companies Act. 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations. 2015. Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 19th September, 2024 to 25th September, 2024 for the purpose of the AGM of the Company.

In pursuance of Section 108 of the Companies Act. 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation of the SEBI (LODR Regulation 2015, the Company is providing e-voting facility to its Members as provided by NSDL on all resolutions as set out in the Notice of 49th AGM. Members of the Company may transact the business through voting by electronic means. The electronic dispatch of annual report to member has been completed on Monday, 02:09:2024 The remote e-voting facility commence at Sunday 22.09.2024 at 9:00 A.M. IST and ends on

Tuesday 24.09.2824 at 5.00 P.M. ISTfor all shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. The e-voting module shall be displayed by NSDL for Voting. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic Voting is i.e. Wednesday,

A person, who acquires shares and become shareholders of the company after dispatch of

Notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining loginid and password bysending an e-mail to https://www.evoting.nsdl.com.by/mentioning-their folio no./DP ID and Client ID No. However if such shareholder is already registered with NSDL for remote -voting then existing user id and password can be used for remote e-voting.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdi.com or call on : 022 - 4886 7000 or send a request to (Ms. Pallavi Mhatre Senior Manager, NSDL) at evoting@nsdl.com. Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members

attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right at the meeting A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote

e-voting, but shall not allowed vote again at the meeting. Notice of AGM is available on company's website www.autopinsindia.com and on the website

A person, whose name recorded in the register of members maintained by the depositories as

on 18th September, 2024, shall be entitled to vote Mr. Parveen Rastogi, Practising Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for overseeing conducting the remote e-voting and the voting process in a fair and transparent manner.

By order of the Board For Auto Pins (India) Limited

Date: 02nd September, 2024

Rajbir Singh Managing Director DIN: 00176574

PUSHPSONS INDUSTRIES LIMITED Registered Office:- B-40, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020 Email: info@pushpsons.com Website: www.pushpsons.com

CIN: L74899DL1994PLC059950 Tel: 011-41610121 Fax: 011-41058461 NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the Members of the Company scheduled will be held on Saturday 28th September, 2024 at 11:00 A. M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio- Visual Means ("OAVM") facility, to transact the Business contained in the Notice of 30th AGM. In compliance with the various circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA")

i.e. circular dated December 28, 2022 read with circulars dated May 05, 2022. January 13, 2021, December 14, 2021, April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI vide its Circular dated January 05, 2023 and October 07, 2023 (referred to as "SEBI Circular") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular, Companies are permitted to conduct their AGM on or before September 30, 2023 in accordance with the requirements provided in the General Circular No. 20/ 2020 dated May 05, 2020, 09/2023 dated 25th September, 2023. In compliance with the provisions of the Act, SEBI Listing Regulations, MCA Circulars and SEBI Circular, the 30th AGM of the Company is being held through VC / OAVM facility, without the physical presence of Members at a common venue. The deemed venue for the 30th AGM shall be the Registered Office of the Company

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated 12th May 2020, 25th September, 2023, Notice of AGM along with the Annual Report 2023-24 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Members may note that the Notice and Annual Report 2023-24 will also be available on the Company's website www.pushpsons.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at

In case you have not registered mail id with the Company/Depositories, please follow below instruction to register your mail ID for obtaining Annual Report for FY 2023-24

In case the shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of Shareholder, scanned copy of the Share Certificate (front and back), PAN (selfattested scanned copy of PAN Card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to beetalrta@gmail.com) or info@pushpsons.com

In case shares are held in demat mode, please provide DP ID and Client ID, Name, Copy of Account Statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card) and AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to beetalrta@gmail.com or info@pushpsons.com. The Shareholders are requested to contact their Depository Participants for registration

Email ID as per the process provided by DP The procedure to join the meeting through VC/DAVM is provided in the notice of AGM.

The members are further informed that: The ordinary business as set out in the Notice of AGM may be transacted through

voting by electronic means. The remote e-voting of the shareholders shall be reckoned on the equity shares

held by them as on Saturday, 21st September, 2024 being the cut-off date for this purpose. Shareholders of the Company holding shares either in physical or dematerialized form on the said cut-off date only shall be entitled to avail the

The remote e-voting period commences on Wednesday, 25th September, 2024 at 10:00 A.M. and ends on Friday, 27th September, 2024 at 5:00 P.M. and shall not Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of

AGM and holding shares as of the Cut-off date i.e. 21st September, 2024 may obtain the user ID and password by sending a request at helpdesk evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining the user ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and CDSL's website. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote through remote e-voting.

Details of the manner of casting remote e-voting is available to the annexure of the notice for 30th AGM, which is also posted on the website of the Company viz. www.pushpsons.com and on the website of Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) the remote e-voting agency viz., www.evotingindia.com. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently

Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com. under help section or write an email to helpdesk evoting@cdslindia.com. lotice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the

Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Reg. 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Sunday, the 22nd day of September, 2024 to Saturday, the 28th day of September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of annual closure of Books.

For Pushpsons Industries Limited

Pankaj Jain Place: Delhi Director Date: 02.09.2024 DIN: 00001923 Res. Add.: E-16, Lane W-4, Sainik Farms, New Delhi- 110062 एफिशिएंट इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएन –L65923DL1984PLC019608 **रजि. कार्यालयः** ३ / १४ए, विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली—११०००९, संपर्क नं.9311480885, वेबसाइट:— www.efficientindustrial.com,

ईमेलः efficientindustrial@gmail.com एफिशिएंट इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड के शेयरधारकों के ध्यानार्थ सार्वजनिक सचना

सेबी के नवीनतम परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक अक्टबर २०२३ के साथ पठित, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के नवीनतम परिपत्र संख्या ०९/२०२३ दिनांक २५ 09.2023 के साथ पठित 10 / 2022 दिनांक 28.12.2022 के अनुसार कंपनी को शेयरधारकों को नोटिस और ग्नार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की छूट दी गई थी और 30 सितंबर 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक मोड वं नाध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की भी अनुमति दी गई थी। उपरोक्त के मद्देनजर, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और नियमों तथा उसके तहत जारी किए गए परिपत्रों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत सेबी द्वारा जारी किए गए विनियमों और परिपत्रों वं अनुपालन में ,एफिशिएंट इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) अपनी 40वीं वार्षिक आम बैठक, सोमवार, 30 सितंबर 2024 को अपराह 01:00 बजे, ऑडियो विज्अल माध्यम से बैठक बुलाने का इरादा रखती है। रजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट() पर प्रदर्शित किया जाएगा और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑप

इंडिया लिमिटेड (www.msei.in) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। हम अपने सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और अन्र संचार प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी अपडेट करें। इसके अलावा, अपने बैंक विवरण को अपडेट क ताकि कंपनी द्वारा समय–समय पर भुगतान किए गए लाभांश का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बिना किसी देरी औ

बैंकिंग परेशानियों के किया जा सके। उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उपयोगकर्ता आईडी औ पासवर्ड प्राप्त करने तथा - इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई—वोटिंग के लिए ई—मेल आईडी व

यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की गई प्रति) को ई-मेल द्वारा efficientindustrial@gmail.com पर प्रदान करें यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंक डीपीआईडी सीएलआईडी या 16 अंक लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन(पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की हुई प्रति

efficientindustrial@gmail.com पर भेजें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी हिस्सेदारी को डीमैट रूप में परिवर्तित करें क्योंकि सेबी द्वारा भौतिक रूप में शेयरों के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है।

एफिशिएंट इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड के लिए

दिनांकः 3 सितम्बर, 2024 स्थानः नई दिल्ली

हस्ता /-स्वाति तोमर अनुपालन अधिकारी सह कंपनी सचिव

क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड (पूर्व में क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशस (आई) प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) सीआईएन : L22219DL2014PLC263964

कॉर्पोरेट कार्यालय: ए –31, सेक्टर –58, नोएडा– 201301, उत्तर प्रदेश, भारत पंजीकृत कार्यालय: 3 एफ – 305 , तीसरी मंजिल , एसएसजी ईस्ट प्लाजा , प्लॉट नंबर 1 और 2 , मामराम कॉम्प्लेक्स, मयूर विहार, फेज- III, दिल्ली- 110 096, भारत ई- मेल आईडी: accounts@creativegraphics.net.in, मोबाइल: 95607990 03

10 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतरवारा सचना दी जाती है कि क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्युशंस इंडिया लिमिटेड ("क्रपनी") के सदस्यों की 10वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को दोपहर 01:00 बजे (आईएसटी) हाइफन बिजनेस होटल, सी-45,सैक्टर-62, नोएडा, सुपरटेक बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल एरिया, उत्तर प्रदेश – 201301 में आयोजित होने वाली है ।

ई—मेल पते को पंजीकृत करने / अपखेट करने का तरीकाः

डीमैंट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अभी तक अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर / अपडेट नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे डिमटेरियलाइज्ड शेयरों के मामले में एनएसडीएल / सींडीएसएल 'डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट') से संपर्क करें.

सदस्यों को एजीएम की सुचना में निर्धारित व्यावसायिक मदों पर दूर से ही अपना वोट जालने का अवसर मिलेगा । रिमोट ई--वोटिंग मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 (सुबह 09:00 बजे) से शुरू होकर गुरुवार, 26 सेतंबर, 2024 (शाम 05:00 बजे) तक चलेगी । ई—वोटिंग के लिए कट—ऑफ तिथि शुक्रवार, 20 सितंबर 2024 होगी । ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने का तरीका जिसमें भौतिक शेयरधारक या ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं, एजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा उपर्युक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई—बोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कंपनी बैलेट पेपर के माध्यम से बैठक में उपस्थित सदस्यों दारा मतदान के लिए प्रदान करेगी । एक सदस्य दुरस्थ ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी बैठक में भाग लें सकता है, लेकिन बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक सदस्य जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट—ऑफ तारीख के अनुसार ढिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लामकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा के साथ—साथ आम बैठक में मतदान करने का हकदार होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियमन, 2015 के विनिधमन 42 के अनुसार नोटिस भी दिया जाता है कि एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 21 सितंबर, 2024 से शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 (दोनों

वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम नोटिस की प्रति और इस तरह के मतदान के लिए लॉगिन विवरण, उन सभी सदस्यों को भेजा जाएगा जिनके ईमेल पते कंपनी / डीपी के साथ नियत्त समय में पंजीकृत हैं और कंपनी की वेबसाइट यानी https://creativegraphics.net.in/home/ annual-report/ और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात एनएसई लिमिटेड ww.nseindia.com पर

शेयरधारक सुश्री पूजा अरोड़ा मेहरोंत्रा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी से बे cs@creativegraphics.net.in पर लिखकर संपर्क कर सकते हैं ।

तिथि : 02.09.2024

पूजा अरोड़ा मेहरोंत्रा कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड के लिए

स्थान : नोएडा

डयूरोपैक लिमिटेड सीआईएन : L74899DL1986PLC025835 पंजीकृत कार्यालयः 3123, सेक्टर-डी, पी.के.टी.-॥, वसंत कुंज, नई दिल्ली -110070 टेलीफोनः 01126191861

ईमेलः info@duropackindia.com वेबसाइटः www.duropackindia.com 36वीं वार्षिक आम बैठक और रिकॉर्ड तिथि के बारे में जानकारी

- कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") कंपनी अधिनियम के सभी लागू प्रावधानों अनुपालन में, शनिवार, 28 सिलंबर, 2024 को खबह 10:00 बजे वीखियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") अन्य ऑडियो-विज्अल मध्यमी ("ओवीएएम") के मध्यम से आयोजित की जाएगी। 2013 औ उसके तहत बनाए गए नियम ("अधिनियम") और भारतीय प्रतिमृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी" (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम''), 2 सितंबर, 2023 के नवीनतम सामान्य परिपन्न संख्या 09 / 2023 के साथ पठित, 8 अप्रैल, 2020 परिपन्न संख्या 14 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपन्न संख्या 17 के साथ पठित, क्रमशः कॉर्पोरे मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी (इसके बाद सामृहिक रूप से "एमसीए परिपन्न" के रूप में संदर्भित ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियां-विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम वार्षिक आम बैठक के आयोजन की अनुमति दी है, बिना किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के। भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") ने अपने नवीनतम परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांव 07 अक्टूबर, 2023 को परिपन्न संख्या सेबी/एवओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी, सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 के साथ पठित करके दिनांक 13 मई, 2022, 15 जनवरी, 2021 और 12 मई, 2020 ("सेबी परिपन्न") और अन्य लागू परिपन्नों (सामृहिक रूप र "प्रासंग्रिक परिपत्र" के रूप में संदर्शित) के साथ एजीएम बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए कहा है। सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोए
- संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक की सुबना और वित्तीय वर्ष 2023-24 व वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और इसकें साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ, कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजा जाएगा जिनके ईमेल प कंपनी / विपॉजिटरी प्रतिभागी(ऑ) के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइ https://duropackindia.com/annual-report और रटॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की

वेबसाइट https://www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। ईमेल पते पंजीकतध्अपढेट करने का तरीकाः

(ए) मौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल प पंजीकृत/अपडेंट नहीं किए हैं, जनसे अनुरोध है कि वे कंपनी क cs@duropackindia.com और info@duropackindia.com पर या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स अमिप्रा कैपिटल लिमिटेंड को rta@abhipra.com प फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) के विवरण के साथ लिखकर इसे पंजीकृत / अपडेट करें।

(बी) यदि शेयर डीमेट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 जंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लागार्थी आईडी), शेयरधारक का नाम, क्लाइट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की रव-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) cs@duropackindia.com और info@duropackindia.com पर या मेससे अभिप्रा कॅपिटल लिमिटेड, रिजस्ट्रार ऑर कंपनी के जेयर ट्रांसफर एजेंट को rta@abhipra.com पर उपलब्ध कराएं।

 ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीकाः (ए) सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग") के माध्यम से एजीएम की सूबना निर्धारित व्यवसाय पर अपना वीट डालने का अवसर मिलेगा।

(ख) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के मध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराइ जाएगी तथा एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के मध्यम से अपन बोट नहीं डाला है, वे इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम में मतदान कर सकेंगे। एजीएम के दौरान वीसी/ओवीएएम के मध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा ई-वोटिंग सिस्टम के मध्यम से मतदान करने का तरीका, भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके द्वारा एजीएम की

(ग) डीमैटरियलाइज्ड मोड, भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपन ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके द्वारा रिमोट रूप से मतदान करने का तरीका (रिमोट ई-वोटिंग) एजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा। . वार्षिक आम बैठक के लिए बुक क्लोजर / रिकॉर्ड तिथि:

यह भी सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 42 व अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुरतकें वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से शनिवार, 21 सितंबर, 2024 से शनिवार, 28 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्पिलित) तक बंद

सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए सभी नोट्स और वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए दिए गए निर्देशों, रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से या वार्षिक आम बैठक के दौरान वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें। निदेशक मंडल की ओर से

> ढब्र्रो पैक लिमिटेड हस्ताक्षरकर्ता / विवेक जैन प्रबंध निदेशक क्षीआईएनः 01753065



आईटीकॉन्स ई—सोल्यशन्स लिमिटेड

CIN: U72900DL2007PLC163427 पंजीकृत कार्यालय: रंगस एलिगेंस 2एफ, एलिगेंस जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, पुराना मथुरा मार्ग,

दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली-110025 भारत कॉर्पोरेट कार्यालय: तृतीय तल, बी-10, बजाज भवन, सेक्टर-3, जमना लाल बजाज मार्ग, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 भारत

दूरभाष : +91-120-4149563 । ईमेल : cs.pooja@itconsinc.com । वेबसाइटः www.itconsinc.com 17वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग एवं बही समापन की सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि आईटीकॉन्स ई—सोल्युशन्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 17वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शक्रवार 27 सितंबर, 2024 अपराह 03,00 बजे(आईएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल संसाधनों ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम से, एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसायों का संचालन करने लिये की जायेगी, जो कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 एवं 9/2023 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("संबी") के परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई 2020, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी 2021, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 एवं सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी 2023 के अनुपालन में आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना,

सोमवार 02 सितंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से,उन सभी शेयरधारकों को भेज दी गई है, जिनके इंमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं और यह कंपनी की वेबसाइट www.itconsinc.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यथा बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और एनएसडीएल वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी, सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के विषयों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

नियमों के अनुसार विवरण यहां दिये गये हैं : क) रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि एवं समय : 24.09.2024 (प्रात: 9.00 बजे आईएसटी)

ख) रिमोट ई-वोटिंग के समापन की तिथि एवं समय : 26.09.2024 को (सायं 5.00 बजे आईएसटी) ग) कंपनी के सदस्य, जिनके पास कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21.09.2024 के अनुसार भौतिक या अभौतिक रूप

में शेयर हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने वोट डाल सकते हैं। घ) इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को 26.09.2024 को सायं 5.00 बजे आईएसटी के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी। ड.) सदस्यगण, उस स्थिति में एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से बैठक में अपने वोट डाल

सकेंगे, यदि उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त नहीं की है। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग करने के लिए कृपया एजीएम सूचना में उल्लिखित निर्देश देखें। यदि वोट रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से डाले जाते हैं तो सदस्यों को सामान्य बैठक में अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने की अनमति नहीं होगी। च) सदस्यगण, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी आम बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छ) एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों की पंजिका में या डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित

ज) कोई भी व्यक्ति जिसने शेयर प्राप्त किये हैं और सूचना भेजने के बाद लेकिन कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितंबर 2024 को या इससे पहले कंपनी का सदस्य बन गया है, वह एजीएम सचना में उल्लिखितानुसार चरणों का पालन करके लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में दर्ज है, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग या सामान्य बैठक में वोटिंग की सुविधा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल संसाधनों के माध्यम से एजीएम में भाग लेनेवाले सदस्यों की गणना, अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत, गण पूर्ति के उद्देश्य से की जायेगी।

निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिये श्रीमती स्नेहल कश्यप, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग का परिणाम, कंपनी की एजीएम के 2 कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा। स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम, स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करने के अलावा, सदस्यों की जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये गये हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन अनुसार, कंपनी के सदस्यों की पंजिका तथा अंश अंतरण बहियां, वार्षिक आम बैठक के प्रयोजनार्थ रविवार 22

सितंबर 2024 से लेकर के शुक्रवार 27 सितंबर 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। जीएम में उपस्थित होने तथा ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग से संबंधित समस्त प्रश्नों अथवा शिकायतों के लेये. आप www.evoting.nsdl.com पर सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्नों 'एफएक्यू'') एवं ई—वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल से 1800 1020

990 और 1800 22 44 30 पर या evoting@nsdl.co.in पर एक ईमेल लिख सकते हैं। कृते आईटीकॉन्स ई-सोल्यूशन्स लिमिटेड

हस्ता./-

गौरव मित्तल

प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 02 सितंबर, 2024

dhani **DHANI SERVICES LIMITED**

(CIN: L74110HR1995PLC121209) Registered Office: 5th Floor, Plot No. 108, IT Park, Udyog Vihar, Phase 1, Industrial Complex Dundahera, Gurgaon- 122016, Haryana

Tel: 0124-6685800, Website: www.dhani.com, E-mail: support@dhani.com NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of Dhani Services Limited ("the Company") is scheduled to be held on Wednesday, September 25, 2024, at 02:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the businesses as listed in the AGM Notice dated August 28, 2024, convening the AGM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations") read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The proceedings of AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company. Members intending to attend the AGM through VC/OAVM may attend the AGM by following the procedure prescribed in the AGM Notice.

In compliance with the relevant circulars issued by MCA and SEBI, the Notice convening 29th AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 ("Annual Report") has been sent, through electronic mode on September 2, 2024, to those Members whose e-mail address is registered with the Company / Registrar & Share Transfer Agent (RTA) / Depository Participants (DPs).

The aforesaid documents are also available on www.dhani.com, www.skylinerta.com, https://evoting.kfintech.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com,

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) ("the Rules") and Regulation 42 of SEBI LODR Regulations, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, September 19, 2024 to Wednesday, September 25, 2024 (both days

inclusive) for annual closing (for the purpose of AGM).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Rules and Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations and applicable Circulars, the Company is providing remote e-voting facility to all its Members to exercise their right to vote on the resolutions listed in the AGM Notice and has availed the services of KFin Technologies Limited ("KFintech") for providing VC facility and e-voting. The detailed procedure for attending the AGM through VC/OAVM and the e-voting is provided in the AGM Notice. The AGM Notice also contains Instructions/details with regard to process of obtaining Login credentials by Shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their e-mail

address either with the Company or their respective DPs. Some of the important details regarding the remote e-voting and VC/OAVM facility

Link to VC / OAVM	https://emeetings.kfintech.com/
Link for remote e-voting	For Individual Members: https://www.evoting.nsdl.com/ (holding securities in demat mode with NSDL) https://www.odslindia.com/ (holding securities in demat mode with CDSL) For non-Individual Members and Members holding shares in physical form; https://evoting.kfintech.com
Cut-off date for determining the Members entitled to vote through remote e-voting or during the AGM	Wednesday, September 18, 2024. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company, as on Wednesday, September 18, 2024.
Commencement of remote e-voting period	Sunday, September 22, 2024 at 10.00 A.M.

End of remote e-voting Tuesday, September 24, 2024 at 5.00 P.M. The remote e-voting shall be disabled by KFintech at 5:00 PM on September 24, 2024 and thereafter the Members shall not be able to vote through remote e-voting. However to enable the Members, who have not cast their vote through remote e-voting, insta-poll (e-voting) facility will also be made available during the AGM. Further, the Members who have cast their votes through remote e-voting may

attend the AGM through VC/OAVM. Members holding shares in physical form or those who have not registered their e-mail ID with the Company/RTA/DPs or the persons who becomes a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. September 18, 2024 may obtain the User ID and password in the manner as mentioned in the Notice and can cast their vote through remote e-voting or through insta-poll (e-voting) during the meeting. Detailed instructions are

All documents referred to in the AGM Notice and the Explanatory Statement are

available on the website of the Company for Inspection by the Members. Manner of registering/updating e-mail address:

provided in the AGM Notice.

Place: Gurugram

Date: September 02, 2024

a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their e-mail address with the Company, are requested to register/update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of Company and RTA at https://dhani.com/ and https://www.skylinerta.com/pdf_file/66_642181213_Form_ISR-1.pdf, respectively) duly filled and signed along with the supporting documents to Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020.

 b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their e-mail address, are requested to register/update their e-mail addresswith the Depository Participant(s), where they maintain in their demat accounts.

Mr. Sukesh Saini (Membership No. 11688), Proprietor of M/s. Sukesh & Co., Practicing Company Secretaries, Gurugram has been appointed as Scrutinizer in accordance with the Provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) to act as Scrutinizer for e-voting

In case of any query / grievance(s) connected with attending the AGM through VC/OAVM or the electronic voting, Members may contact Ms. C Shobha Anand, KFin Technologies Limited Unit: Dhani Services Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Tel: +91 40 6716 2222, Toll Free No.: 1-800-309-4001; E- evoting@kfintech.com.

> By Order of the Board For Dhani Services Limited Ram Mehar Company Secretary Membership No. FCS: 6039

www.readwhere.com

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 02 सितंबर, 2024